

August 17, 2024

BSE Limited, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI-400001 Scrip Code: 543915	The National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI-400 051 Scrip Code: PAVNAIND
---	---

Sub.: Board Meeting dated 14th August, 2024 – Newspaper Publication of Unaudited Financial Results

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 w.r.t. Board Meeting held on 14th August, 2024, please find enclosed herewith, copy of the extract of unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 as published in English and Hindi Newspaper.

The same shall also been made available on the Company's website www.pavna.in.

Further this is informed that on account of Independence Day, the advertisement not published on 16th August, 2024 due to public holiday.

This is for your information and record.

Yours faithfully

For Pavna Industries Limited

Charu Singh
Company Secretary & Compliance Officer
M.No. A 48257

किसान सहकारी चीनी मिल लि., नानोला (सहानुभव)

ई-निविदा सूचना

सफल अनुभवों के साथ ही निविदा प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है।

1- निविदा सूचना जारी की तिथि: 14.08.2024
2- निविदा प्रारंभ करने की तिथि: 20.08.2024
3- निविदा खोलने की तिथि: 31.08.2024

निविदा समिति का अध्यक्ष: राजकमल ई-निविदा प्रणाली से देखी जा सकती है। आवेदनपत्रों की एक प्रतिलिपि निविदा प्रणाली से देखी जा सकती है।

(पता: नानोला)
किसान सहकारी
अध्यक्ष: राजकमल

THE BUSINESS DAILY.

FOR DAILY BUSINESS.

FINANCIAL EXPRESS

financialexp.ap.in

FORM NO. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

6001, University Road Near Hanuman Sethi Mandir, Lucknow-226007 (Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing of Reply & Appearance by Publication

No. (Summons to defendant under section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993).

Original Application No. 64 of 2024 PUNJAB NATIONAL BANK APPLICANT

VERSUS

MR. KISHAN PRAKASH RAI & OTHERS DEFENDANT

To,

3. M/s. Morphous Developers Pvt. Ltd. Office Address- House No. 1, Shiv Mandir Wari Gali Maugpur Delhi- 110053.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book Form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or its counsel (duly authorized agent or legal practitioner) of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 04/11/2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Debt Recovery Tribunal Lucknow

Indian Bank (Koda Sector-31 Branch (CBS-4818) Email: idnoida10@indianbank.co.in)

APPENDIX - IV (Rule-011) POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Where as the undersigned being the Authorised Officer of the Indian Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(1)(c) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 20.05.2024 calling upon the borrowers Mr. Ram Das S/o Mr. Maugli Ram and Mrs. Ramo Devi W/o Mr. Ram Das (Loan A/c. 5050505) with Noida Sector 31 of Nithari Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 5,90,201.00 (Rupees Five Lacs Ninety Thousand Two Hundred and One) as on 10/05/2024 and the said amount carries further interest at the agreed rate from 20/05/2024 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (1) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 13th day of August of the year 2024.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property, which will subject to the charge of the Kisan Bank for an amount Rs. 5,82,798.00 (Rupees Five Lacs Eighty Two thousand Seven Hundred Ninety Eight only) as on 10/08/2024 and the said amount carries further interest at the agreed rate from 13/08/2024.

The borrower is further invited to provisions of sub-section (3) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All the part and parcel of the Residential Plot No. 753 Ground Floor Situated at Naya Khand - Indrapuram Ghaziabad Uttar Pradesh addressing area 2426 Sq Mtr

Bound by: North: Plot No 754 East: Back West: Plot No 758 South: Plot No 750 West: Plot No 758

Date: 13.08.2024 Sd/- (Authorized Officer)

Place: Noida Indian Bank

PVNA INDUSTRIES LIMITED

Regd Office: Pavnanchal, Hari Nagar, Aligarh, Uttar Pradesh - 202001

Email: info@pvnaigroup.com; Website: www.pvna.in; Mb.no.+91-8006409330

CIN : L34109UP1994PLC018359

Extract of Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 and Unaudited Consolidated Financial results for the Quarter ended June 30, 2024 (In lakhs)

S.no.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year Ended		Quarter ended		Year Ended	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total revenue	7700.01	7,367.81	6,907.71	28,307.48	7,900.93	8,166.19	8,185.47	31,987.32
2	Profit/(Loss) before share of Profit/(Loss) of associates, exceptional items and tax	298.06	282.24	385.02	1,047.38	293.44	394.53	522.11	1,670.98
3	Profit/ (Loss) before share of Profit/(Loss) of associates and Tax	298.06	282.24	385.02	1,047.38	293.44	394.53	522.11	1,670.98
4	Profit/(Loss) for the period	225.93	208.11	283.68	777.5	213.05	293.07	409.62	1,200.41
5	Profit/(Loss) for the period after share of Profit/(Loss) of associates	225.93	208.11	283.68	777.5	213.05	293.07	409.62	1,200.41
6	Total Comprehensive Income for the period/year Paid up Equity share capital (Face Value of Rs.10 per share)	1218.08	1,218.08	1,218.08	1,218.08	1,218.08	1,218.08	1,218.08	1,218.08
7	Earnings per Equity Share								
8	(1) Basic	1.85	1.71	2.33	6.38	1.83	2.2	3.36	8.67
	(2) Diluted	1.85	1.71	2.33	6.38	1.83	2.2	3.36	8.67

Notes:

1. The above standalone unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 and unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee on August 13, 2024 and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 14, 2024. Limited Review Report for the financial results for the quarter ended June 30, 2024 as required under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company. The full format of the Financial results are available on the Company's website (www.pvna.in) and stock exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com).

Date: 14.08.2024
Place: Aligarh

SD/-
Swagmit Jain
Managing Director

Canara Bank

NIRMAN VIHAR BRANCH DELHI - 110092

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that following lockers with Nirman Vihar Branch of Canara Bank (e-Syndicate) have been opened by locker holders and in respect whereof the locker holders are not operating the locker for the last number of years or are not paying the arrears of locker charges and the locker agreements are missing at the same time.

S. No.	Name of Locker	Locker Number	Address	Locker Rent Due From	Last Operation	Arrear Amount
1	Sushma Jain W/o Late Mr. R. P. Jain	340	166 Gangan Vihar Delhi 110092	2021	31.05.2016	Rs. 17,110.00

In some cases, the locker holders are meant to have expired. By this notice, it is hereby notified to all the interested persons that they should approach the respective branch within a period of 15 days of this notice with authentic proof of the ownership of the locker, execute fresh locker agreements and pay the arrears of locker charges, documents providing identity of the person intending to operate the locker or to remove its belongings such as passport, adhar card, proof of residence etc. In case no response is received for the locker, the bank shall be constrained to break open the lockers in the presence of witnesses and keep aside its contents while securing its lien over the contents of the lockers for recovery of arrears of locker charges.

Date: 14.08.2024 Place: New Delhi Branch Manager

Canara Bank

GREEN PARK EXTENSION BRANCH DELHI - 110016

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that following lockers with Green Park Extension branch of Canara Bank have been opened by locker holders and in respect whereof the locker holders are not operating the locker for the last number of years or are not paying the arrears of locker charges and the locker agreements are missing at the same time.

S. No.	Name of Locker	Locker Number	Address	Locker Rent Due From	Last Operation	Arrear Amount
1	Sunil Nanda	1719	D-34/III Floor, Gulmohar Park, Delhi: 110049	2023	01.04.2021	Rs. 17,110.00
2	D. R. Malik	268	P-7/A Green Park Extn. New Delhi: 110016	2023	18.07.2020	Rs. 17,110.00
3	ARUNA IMPEX	1289	H-7/A RAJAS KHANES NEW DELHI: 110016	2023	11.02.2021	Rs. 59,865.00

In some cases, the locker holders are meant to have expired. By this notice, it is hereby notified to all the interested persons that they should approach the respective branch within a period of 15 days of this notice with authentic proof of the ownership of the locker, execute fresh locker agreements and pay the arrears of locker charges, documents providing identity of the person intending to operate the locker or to remove its belongings such as passport, adhar card, proof of residence etc. In case no response is received for the locker, the bank shall be constrained to break open the lockers in the presence of witnesses and keep aside its contents while securing its lien over the contents of the lockers for recovery of arrears of locker charges.

Date: 13.08.2024 Place: New Delhi Branch Manager

78th INDEPENDENCE DAY

EIL: celebrated the 78th Independence Day with great patriotic zeal and fervor. At the main function held at EIL Office Complex in Gurugram, Ms. Varika Shukla, CMD, EIL hosted the National Flag in the presence of Functional Directors, and senior officials of the Company. The program was attended in large numbers by employees and their families.

NMDC: Bachelri celebrated the national festival Independence Day with great pomp in the premises of Day School on the occasion of Independence Day. The chief guest of the program was B. Venkateswarlu, ED, NMDC Bachelri, R Narayan, Project Head (Works), P Ramayan, CCGM (Production), S Kumar, DGM (Personnel), & various heads of BIOM, Bachelri Complex & officials of trade unions participated.

NBCC: celebrated the 78th Independence Day at its headquarters with much ardor & patriotism. The celebration of freedom commenced with the hoisting of the National Tricolor by KP Mahadevaswamy, CMD, NBCC in the presence of Suman Kumar, Director (Commercial), Bhinrao Panda Bhoosale, Independent Director & Asim Misra, Independent Director & other senior officers.

THDCIL: commemorated 78th Independence Day with great enthusiasm and fervor at CO, Rishikesh, as well as across all its Project sites and Unit offices, Nationwide. The event was a reflection of the organization's commitment to the Nation and its enduring spirit of Unity and Patriotism. Speaking on the occasion, RK Vishnoi, CMD, THDCIL, extended heartfelt greetings to all THDC employees and their family members. Vishnoi paid homage for the extraordinary sacrifices and indomitable spirit of India's freedom fighters.

CANARA BANK: Ro. Nehru Place, Delhi has observed "Canara Bank Dr. Ambedkar Vidya Jyothi Scholarship Scheme" as a "Pan India Mega CSR Initiative" on the occasion of 78th Independence Day Celebration at Circle office, Delhi. "Canara Vidya Jyothi" scheme was launched as a tribute to the founder Sri Ambedkar Subba Rao Pal, who propagated girls' education as the basic need for meaningful development & to encourage education among girl children.

ANNIVERSARY—LMORA URBAN CO-OPERATIVE BANK

The 33rd anniversary of the establishment of Alhora Urban Co-operative Bank was celebrated with great enthusiasm at the Bank Headquarters, Lala Bazar, Alhora, Managing Director of the Bank, RC, Tiwari said that in these 33 years, the business which started with Rs 254 lakh has today reached more than Rs 5200.00 crore through 60 branches of the bank and direct employment has been provided to more than 800 youth.

SCHOLARSHIP SCHEME — CANARA BANK

Canara Bank Regional Office West Delhi Vikaspuri has organized Canara Bank Dr. Ambedkar Vidya Jyoti scholarship scheme on 14.08.2024. The program was organized under the chairmanship of Ravi Kumar, AGM, Regional Office West Delhi and chief guests Rajveer Singh (DDE West Delhi-B), Mrs. Neera (DDE West Delhi), & Mayesh Chandra (DDO West Delhi).

HUDDCO The Board of Directors in its meeting held recently, approved the financial results for Q1FY25 showing a remarkable growth, both in operational and financial parameters. HUDDCO witnessed a 19% YoY growth in Revenue from Operations Lt. from Rs.1,842.61cr in Q1 FY24 to Rs 2,188.35 cr or Q1 of FY25 showing significant increase in loan disbursements, 30% growth in loan book & decline in Non-performing assets of funds. The Q1FY25 witnessed highest ever Q1 loan disbursements of Rs 12,625 cr as against Rs 629 cr during Q1FY24. The increased Revenue from Operations has resulted in Highest ever Q1 PAT of Rs 557.75 cr, an increase of 25% from Rs 445.70 cr in corresponding quarter of FY24.

CORPORATE BRIEFS

OIL INDIA: celebrated India's 78th Independence Day with great enthusiasm at its Corporate Office in Noida. The occasion was graced by Dr. Ranjit Rath, CMD, Oil India Limited, who unfurled the Tricolor as the National Anthem resonated through the gathering, inspiring a deep sense of pride among the attendees. The event witnessed the participation of Functional Directors, employees, and their families, creating an atmosphere of unity and patriotism. Responding to PM Modi's call for the Ek Pad Maa Ke Naam initiative, Dr. Rath added a meaningful touch to the celebrations by planting a sapling. This act symbolized the company's commitment to protecting Mother Nature and promoting sustainable living. Dr. Rath encouraged employees and their families to join this green movement by planting saplings, underlining that each tree is a tribute to our planet and a step toward a more sustainable future.

NHPC: celebrated India's 78th Independence Day with patriotic fervour and enthusiasm at NHPC Corporate Office, Faridabad. The celebrations began with the hoisting of National Flag by RK Chaudhary, CMD, NHPC and singing of the National Anthem. RP Coyal, Director (Finance), Sanjay Kumar Singh, Director (Projects), Santosh Kumar, CVO, NHPC and other senior officers and personnel of NHPC were present on the occasion along with their family members. Speaking on the occasion, RK Chaudhary, CMD, NHPC extended his best wishes to the entire NHPC family on the occasion of Independence Day. He said that Independence Day is a moment to remember all our brave freedom fighters who fought for the country's freedom.

NDMC: Chairman, Naresh Kumar hoisted the National Flag on the occasion of 78th Independence Day of India, at NDMC Headquarter - Palika Kendra. On the occasion of hoisting the flag at NDMC Headquarter, Vice-Chairman, NDMC, Satish Upadhyay, Council Member Smt. Vishakha Shaikhan, Secretary-NDMC, Krishna Mohan Uppu, Senior Officers and Officials, School students, teachers were also present.

MORARJI DESAI NATIONAL YOGA INSTITUTE: Hoisting on the auspicious occasion of 78th Independence Day, a flag hoisting program was organized in the premises of Morarji Desai National Yoga Institute. Wherein the Director of the Institute, Dr. Kashinath Samagandi, hoisted the flag. In his address, the Director congratulated everyone on Independence Day and said "our ancestors have achieved this gift of freedom by sacrificing their lives. Therefore, we have to keep it safe in the present". After the flag hoisting, a cultural program was also organized, in which the jawans of the CAPF set the stage on fire with their dance, song and music.

M/O I&B CBC: An exhibition marking Partition Horrors Remembrance Day, was inaugurated at Lala Kalia Academy (LKA), New Delhi organized by the Central Bureau of Communication, M/o Information & Broadcasting. The exhibition will be held from August 14, 2024 to August 17, 2024, at LKA (Ground Floor Gallery), Copernicus Marg, New Delhi. The inaugural ceremony is being witnessed by large number of school students along with other visitors. This exhibition seeks to bring to light the personal stories, the immense pain, and the lasting impact of the partition of 1947 on countless lives. This exhibition aims to honor the memories of those who suffered and to foster a deeper understanding of the complexities and human cost of this historic event. It showcases historical photographs, videos & interactive displays, providing insights into this theme.

QUIZ — NTPC

NTPC organized a grand Olympic Quiz at the Power Management Institute, Noida recently. The quiz was organized by quizmaster KM Prashanth, GM (Corporate Communications). Six teams out of a total of 22 were shortlisted for the finals after the preliminary written round. From fulfilling the needs of sports personnel to running campaigns on multiple social and broadcast media platforms, NTPC through its CSR initiatives has constantly provided remarkable support for the advancement of sports culture in the country.

BANK OF BARODA: observed India's 78th Independence Day with a series of initiatives. The Bank's Managing Director & CEO, Debaddatta Chand, Executive Directors, CVO and senior executives participated in the flag hoisting programme at its Corporate Office in Mumbai. The Bank and its employees also enthusiastically supported the Har Ghar Tiranga campaign.

ASSOCHAM: said India Inc. would be an active partner in the national resolve to make India a developed nation by 2047 when we could celebrate 100 years of Independence day. "The PM has a great ability to connect with the people of the country. His address from the ramparts of Red Fort will reinforce enthusiasm of all Indians to work together and realize the national objectives of achieving excellence with the help of technology and innovation in agriculture, manufacturing, health services and education to make our country Atmanirbhar across different sectors of the economy", said ASSOCHAM Secretary General Deepak Sood.

APPOINTMENTS

HUDDCO Sanjay Kulshrestha, CMD, along with M. Nagaraj, DCP HUDDCO, warmly welcomed Dajjesh Singh Khatri as the new Director Finance at HUDDCO. This marks the beginning of a new chapter for HUDDCO, with Khatri's extensive expertise that will bring valuable insights and leadership to the organization's financial strategies.

DECCIL Hira Ballabh has taken up the charge of the Managing Director of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. Hira Ballabh has been serving as the Director Finance in the DECCIL and has now also assumed the additional duties of MD of DECCIL. Hira Ballabh started his career as a senior railway officer in 1992 after getting selected in the civil services examination. He completed intermediate schooling from Devidhura and graduated from Nainital. Thereafter, he shifted to Delhi for his higher studies and obtained MA and M.Phil degrees from Jawaharlal Nehru University.

CANARA BANK, RO, Dehradun has organised felicitation of meritorious SC-ST girl students under its corporate social responsibility initiative "Canara Bank Dr. Ambedkar Vidya Jyothi Scholarship Scheme 2024-25" which is aimed to encourage education among girl children from socially & economically backward communities. M. Kumar, Chairman, SC-ST Commission, Uttaranchal region the occasion as chief guest and highlighted the importance of education and corporate social responsibility in the society. Along with the chief guest Canara Bank RO, Dehradun head, MM Kaushik felicitated the girl students.

